

50

शारीर खाना क्र./ FD A/c No	49030300001798
शारीर सूचना क्र./ FD Advice No	FDRO109223245
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	078446918
व्यवहार खाना / Linked Operative a/c	490302000000002
शाखा का नाम/Branch Name	ARWALBIHAR

प्रीति / Scheme गोपनीय / Nomination गोपनीय / Nominee Registration No. पैन नंबर / PAN No. परिचालन पद्धति / Mode of Operation लिखत लिखित / Lien Marked	प्रीति / Scheme गोपनीय / Nomination गोपनीय / Nominee Registration No. पैन नंबर / PAN No. परिचालन पद्धति / Mode of Operation लिखत लिखित / Lien Marked
--	--

ब्याज राशि / Deposit Amount	ब्याज काल की तिथि / Date of Issue	ब्याज दर / Rate of Interest	ब्याज की अवधि / Tenure of Deposit	0 Months 368 Days	04-09-2023	परिमaturity मूल्य / Maturity Value*	223893
--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	------------	--	--------

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

to work in favor of

1. Rate of interest is in percentage per annum

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15A (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be @ 30%.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
6. Premature Withdrawal Clause :

- 1). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
- 2). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
- 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
1. काई से अधिक की की जमागि की पर्यवर्तन आरि से पूरे इक के
आरि कए आरि की गीइ से लिगी आरि तक इक से गीइ गी
जमागि की पर्यवर्तन आरि से पूरे इक आरि (निगी) पर
की पर्यवर्तन आरि से पूरे इक आरि (निगी) पर 1% घरेलु
की गीइ से लिगी आरि तक इक से गीइ गी इक काई से

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

CHANDRA BHUSHAN SINGH S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM ARWAL 804401 INDIA	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	49030300001797
	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0109222825
	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	078446918
	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	49030200000002
	शाखा का नाम/Branch Name	ARWALBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	DUBPS1639P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
140000	01-09-2022	5.45	0 Months 368 Days	04-09-2023	147854

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम। ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : <i>E.E.R.W.D.W.D. ARWAL</i> i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be applicable. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years and more). 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

CHANDRA BHUSHAN SINGH S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM ARWAL 804401 INDIA	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	49030300001796
	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0109222709
	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	078446918
	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	49030200000002
	शाखा का नाम/Branch Name	ARWALBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	DUBPS1639P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क हैं) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
41000	01-09-2022	5.45	0 Months 368 Days	04-09-2023	43300

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम. ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals at the end of each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years & above). 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

24/09/22

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

CHANDRA BHUSHAN SINGH S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM ARWAL 804401 INDIA	सावधि खाता क्र./ FD A/c No 49030300001799
	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0109223305
	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 078446918
	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 49030200000002
	शाखा का नाम/Branch Name ARWALBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	DUBPS1639P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
150000	01-09-2022	5.45	0 Months 368 Days	04-09-2023	158415

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण कलॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण कलॉज : i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम. ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage <i>pledged in favor of</i> 2. Automatic Renewal Clause : <i>E.E.R.W.D.W.D.ARWAL</i> i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals before each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which 15G/ 15H will be treated as invalid. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ़ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

CHANDRA BHUSHAN SINGH	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	49030300001800
S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR0109223323
ARWAL	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	078446918
804401	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	49030200000002
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	ARWALBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	DUBPS1639P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
150000	01-09-2022	5.45	0 Months 368 Days	04-09-2023	158415

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमाराशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमाराशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमाराशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम. ii). 1 करोड़ से अधिक की जमाराशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमाराशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage <i>pledged in favour of</i> 2. Automatic Renewal Clause : <i>E.E. R.W.D. W.D. ARWAR</i> i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more). 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
--	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

105000



बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledged in favour of
E.E.R.W.D.W.D. Daudnagar.
Handwritten
7/2/2022

Released on 27/04/22

CHANDRA BHUSHAN SINGH
S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM
ARWAJ
804401
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 49030300001572
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0702221408
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 078446918
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 49030200000002

शाखा का नाम/Branch Name ATULBIHAR

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)

नामांकन / Nomination Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 49

पैन नंबर / PAN No. DUBPS1639P

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation PROPRIETOR

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अवयस्क है)
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

pledged To -
E.E.R.W.D.W.D.

JEHANABAD

लिकन चिह्नित / Lien Marked N

रकम / Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याज दर / Rate of Interest	काल अवधि / Tenure of Deposit	परिमaturity तिथि / Maturity Date	परिमaturity Maturity Value
105000	03-02-2022	5.00	0 Months 369 Days	07-02-2023	110410

परिमaturity मूल्य सीडीएन के अनुसार (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

शर्तें / Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :
i) यदि अवधि अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का संचालन 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किया जाएगा।
ii) यदि अवधि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय अवधि पर वार्षिक व्याज दर के अनुसार होगा। यदि अवधि के लिए किया जाएगा।
3. फॉर्म 15G और 15H निम्न श्रेणी खातों के लिए है।
i) निवासियों के लिए।
ii) निवासियों के लिए।
iii) निवासियों के लिए।
iv) निवासियों के लिए।
v) निवासियों के लिए।
vi) निवासियों के लिए।
4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age at 60 years and above).
6. Premature Withdrawal Clause:
i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract the penalty i.e. 1% less than the rate of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than the rate of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, the bank will deduct the amount of 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to bank.

Please note: This is a system generated advice and does not require any signature



Pledge in favour of
E.E.R.W.D.W.D. Daudnagar.
Handwritten
7/2/2022





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledged in favour of
E.E.R.W.D.W.D.
Annual 7/21/2022

जमा प्रति सूचना / Deposit Certificate

Released on 27/04/22

CHANDRA BHUSHAN SINGH

S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM
ARWAL
534401
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No 490303000015/4
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No FDR0702221441
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No 0/P146918
ध्ववहार खाता / Linked Operative a/c 49030200000002
शाखा का नाम/Branch Name ARWALBIHAR

योजना / Scheme FIXED DEPOSIT - RIRD (RES)
नामनमा / Nomination Y
नामिती दर्जकरण क्रमांक /
Nominee Registration No. 1
पैन नंबर / PAN No. DUBPS1639P
परिचालन पद्धति / Mode of
Operation PROPRIETOR
लिखित चिह्नित / Lien Marked N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
अभिभावक का नाम
(यदि खाताधारक अल्पवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

pledged To -
E.E.R.W.D.W.D.
JEHANABAD

जमा राशि / Deposit Amount	जमा करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिमत्तता तिथि / Maturity Date	परिमत्तता मूल्य / Maturity Value
11066.00	03-02-2022	5.00	0 Months 369 Days	07-02-2023	110410

परिमत्तता मूल्य टीएसएस के अटीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर वार्षिक है।
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज:
3. फॉर्म 15G और 15H (यदि लागू) निवासी खातों के लिए है।
4. फ्रेश 15G/ 15H/ 15AA (यदि लागू) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा टीएसएस पर कर कटौती की जाएगी।
5. फॉर्म 15H केवल वरिष्ठ नागरिकों (50 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।
6. प्रीमच्यूर विलड्रॉल क्लॉज:
7. प्रीमच्यूर विलड्रॉल क्लॉज के तहत प्रीमच्यूर विलड्रॉल पर 1% पेनल्टी लागू होगी।
8. प्रीमच्यूर विलड्रॉल क्लॉज के तहत प्रीमच्यूर विलड्रॉल पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी।

Released
27/04/22
Executive Engineer
E.E.R.W.D. (W) Division
JEHANABAD



Pledge in favour
of EERWDD
Annual

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



CHANDRA BHUSHAN SINGH	सावधि खाता क्र./ FD A/c No	49030300001872
S O RAJDEV SINGH AT KORIYAM	सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1611224033
ARWAL	कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	078446918
804401	व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	49030200000002
INDIA	शाखा का नाम/Branch Name	ARWALBIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	DUBPS1639P	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
10000	16-11-2022	6.10	0 Months 366 Days	17-11-2023	10626

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	---

Please note that this is a system generated advice and does not require any signature

Placed in
Power of
Attorney

